

Calcutta High Court at Port Blair. The matter has been considered. The work load from A and N Islands does not justify a permanent Bench at Port Blair. However, the Calcutta High Court has agreed to send Division Benches in circuit to Port Blair frequently.

**मैसर्स बी० एस० टी० टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, बंगलौर को बंक ऋण**

†1201 श्री हृषभदेव नारायण यादव :  
कृपा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री  
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बी० एस० टी० टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, बंगलौर को अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कितना ऋण दिया गया है और उसमें जनता की हिस्सा पूंजी कितनी है तथा उसके प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध मंडल के सदस्यों की पूंजी कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते, विदेश यात्रा तथा अतिथि सत्कार भत्ते के नाम पर लाखों रुपये व्यय किये जाते हैं और उसे कम्पनी के खर्च के रूप में दिखा दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच कराने तथा उक्त कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ए० ए० रहीम ) :**

(क) इस कम्पनी को 31 दिसम्बर, 1980 तक, इसके पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया कुल ऋण 179.68 लाख रुपये था ।

tPreviously Unstarred Question 868, transferred from the 2nd July, 1982.

उपरोक्त तुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी को 100 रु० प्रत्येक के 60,000 इक्विटी शेयरों और 100 रु० प्रत्येक के 15,000 निष्क्रिय संवयी अधिदान शेयरों को सम्मिलित करते हुए कुल अभिदत्ता पूंजी 75 लाख रुपये थी । इसमें से, कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों तथा अन्य निदेशकों द्वारा 5895 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से धारित थे । शेष शेयर जनता सहित अन्यो के द्वारा धारित थे ।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त वर्ष हेतु, कम्पनी ने निदेशकों के यात्रा भत्तों पर 17,252 रु० और निदेशकों के बैठक शुल्क पर 3200 रु० व्यय किये थे । कथित वर्ष के लिये निदेशक की रिपोर्ट में उल्लेख है कि दो प्रबंध निदेशकों ने कम्पनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था ।

(ग) अतः उपरोक्त मामले पर किसी भी जांच का औचित्य नहीं है ।

#### Cool Mining Projects

†1202. SHRI SADASHIV BAGAIT-KAR;

SHRI ABDUL, REHMAN SHEIKH;

With the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that because of the delay in the implementation of the coal mining projects, the cost of about seven such projects have escalated by almost 133 per cent;

(b) if so, what are the details in this regard stating the extent of delay

tPreviously Unstarred Question 1024, transferred from the 4th March, 1982.